

पत्रांक-कृ०नि० / 246 / स्था० / वै०सहा०सं० / 2018-19 / दिनांक- 15 अप्रैल 2018

1. राज्य मुख्यालय/मण्डल मुख्यालय/जिला मुख्यालय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों (वैयक्तिक सहायक संवर्ग) के लिए सुगम एवं दुर्गम का चिन्हांकन (धारा-4 के अनुसार)

क्र० सं०	निदेशालय/मण्डल/जनपद अधिष्ठान का नाम मुख्यालय	दुर्गम/सुगम	अभियुक्ति
1	कृषि निदेशालय	देहरादून	सुगम
2	अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल	पौड़ी	दुर्गम
3	संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल	हल्द्वानी	सुगम
4	मुख्य कृषि अधिकारी	देहरादून	सुगम
5	मुख्य कृषि अधिकारी	हरिद्वार	सुगम
6	मुख्य कृषि अधिकारी	उत्तरकाशी	दुर्गम
7	मुख्य कृषि अधिकारी	टिहरी	सुगम
8	मुख्य कृषि अधिकारी	रूद्रप्रयाग	दुर्गम
9	मुख्य कृषि अधिकारी	पौड़ी	दुर्गम
10	मुख्य कृषि अधिकारी	चमोली	दुर्गम
11	मुख्य कृषि अधिकारी	बागेश्वर	दुर्गम
12	मुख्य कृषि अधिकारी	पिथौरागढ़	दुर्गम
13	मुख्य कृषि अधिकारी	अल्मोड़ा	दुर्गम
14	मुख्य कृषि अधिकारी	चम्पावत	दुर्गम
15	मुख्य कृषि अधिकारी	नैनीताल	सुगम
16	मुख्य कृषि अधिकारी	ऊधमसिंह नगर	सुगम

(जोस सिंह पयाल)
वरिष्ठ प्रशा० अधि०

(दिनेश चौधरी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)

(डॉ० ए०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०सं०

(क०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक


कृषि विभाग में कार्यरत (वैयक्तिक सहायक संवर्ग) के कार्मिकों का तैनाती विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	सेवानिवृत्त तिथि	जन्मतिथि	पात्रता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री वीरेन्द्र कुमार थपलियाल	श्री नरजन सिंह	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	06.12.2005 से वर्तमान तक	12 वर्ष 05 माह 23 दिन	सुगम	18 वर्ष 08 माह 02 दिन	12 वर्ष 05 माह 23 दिन	31.01.2022	15.01.1961	अपात्र	
2	श्री महेश चन्द्र तिवारी	श्री नन्दा बल्लभ	नैनीताल	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.04.2003 से वर्तमान तक	15 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	02 वर्ष 08 माह 12 दिन	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.10.2028	30.10.1968	पात्र	
3	श्रीमती किरन रावत	श्री सतत सिंह रावत	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.12.07 से वर्तमान तक	10 वर्ष 08 माह 29 दिन	सुगम	13 वर्ष 10 माह 17 दिन	10 वर्ष 05 माह 29 दिन	31.10.2031	31.10.1971	पात्र	
4	श्री अजीत सिंह धनाई	श्री उदय सिंह धनाई	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.11.09 से वर्तमान तक	8 वर्ष 06 माह 28 दिन	सुगम	13 वर्ष 09 माह 29 दिन	08 वर्ष 06 माह 28 दिन	31.09.2027	02.03.1967	पात्र	
5	श्रीमती कमला आर्य	श्री ललिता प्रसाद	नैनीताल	रा०कृ०नि० हल्द्वानी	हल्द्वानी	01.04.03 से वर्तमान तक	15 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	-	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.07.2028	03.07.1968	पात्र	
6	श्री बलवीर सिंह रावत	श्री हुकुम सिंह	बमोली	मु.कृ.अ.देहरादून	देहरादून	12.12.05 से वर्तमान तक	12 वर्ष 05 माह 17 दिन	सुगम	-	12 वर्ष 05 माह 17 दिन	31.10.2040	19.10.1968	अपात्र	
7	श्री सुप्रेन्द्रचन्द पन्ना	श्री मदन मोहन	नैनीताल	मु.कृ.अ. उधमसिंह नगर	उधमसिंह नगर	3.1.03 से वर्तमान तक	15 वर्ष 04 माह 26 दिन	सुगम	04 वर्ष 08 माह 25 दिन	18 वर्ष 04 माह 14 दिन	31.06.2028	12.06.1968	पात्र	
8	श्री हरिशोम सिंह	श्री सूखा सिंह	उधमसिंह नगर	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	18.11.13 से वर्तमान तक	4 वर्ष 06 माह 11 दिन	सुगम	-	4 वर्ष 06 माह 11 दिन	31.05.2043	07.05.1963	पात्र	
9	श्री दर्मियान सिंह नेगी	श्री सब्बल सिंह नेगी	टिहरी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	11.9.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 08 माह 18 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 08 माह 18 दिन	31.05.2050	30.05.1990	अपात्र	
10	श्री सुरील भट्ट	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	18.9.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 08 माह 11 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 08 माह 11 दिन	31.12.2048	18.12.1966	अपात्र	
11	श्री सोनम	श्री टीका राम	उधमसिंह नगर	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	9.10.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 07 माह 21 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 07 माह 21 दिन	30.06.2051	24.06.1991	अपात्र	
12	श्री गौरव नैथानी	श्रीधर प्रसाद	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	9.1.15 से वर्तमान तक	3 वर्ष 04 माह 20 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 04 माह 20 दिन	31.03.2045	22.03.1986	अपात्र	
13	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	श्री कुंवर सिंह	बमोली	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	25.2.15 से वर्तमान तक	3 वर्ष 03 माह 03 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 03 माह 03 दिन	31.01.2042	24.01.1982	अपात्र	
14	श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी	गोविन्द सिंह	नैनीताल	मु.कृ.अ.नैनीताल	नैनीताल	1.1.04 से वर्तमान तक	14 वर्ष 04 माह 28 दिन	सुगम	-	32 वर्ष 01 माह 02 दिन	31.05.2025	05.05.1965	पात्र	
15	श्री गोविन्दनाथ गोस्वामी	श्री गंगानाथ गोस्वामी	पिथौरागढ़	मु.कृ.अ. पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	17.08.95 से वर्तमान तक	22 वर्ष 11 माह 13 दिन	दुर्गम	22 वर्ष 11 माह 13 दिन	-	30.06.2032	25.06.1972	पात्र	
16	श्री संजीव रावत	जगदीश सिंह रावत	रुद्रप्रयाग	मु.कृ.अ. बमोली	बमोली	30.7.10 से वर्तमान तक	7 वर्ष 10 माह 00 दिन	दुर्गम	7 वर्ष 10 माह 00 दिन	-	30.06.2039	16.06.1979	पात्र	



जितेंद्र सिंह
अधीक्षक


दिनेश चन्द्र जोशी
मुख्य प्रअधीक्षक


(डी०पी०के०सिंह)
उप कृषि निदेशक (टिपपत्र)


(डी०पी०के०सिंह)
उप कृषि निदेशक (मातृसंघ)


(के०पी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक

5-सुगम क्षेत्र में कार्यरत वैयक्तिक सहायक संवर्ग के कार्य अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (अन से कम तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि 31-06-2018 तक	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	सेवानिवृत्त तिथि	जन्मतिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी	गोविन्द सिंह	नैनीताल	गु.कृ.अ.नैनीताल	नैनीताल	1.1.04 से वर्तमान तक	14 वर्ष 04 माह 28दिन	सुगम	-	32 वर्ष 01 माह 02 दिन	5/31/2025	5/5/1965	तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक अवधि के कारण दुर्गम हेतु पात्र
2	श्री गहेश चन्द्र शिवारी	श्री नन्दा बल्लभ	नैनीताल	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.04.2003 से वर्तमान तक	15 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	02 वर्ष 08 माह 12 दिन	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	10/31/2028	10/30/1968	
3	श्रीमती कमला आर्या	श्री ललित प्रसाद	नैनीताल	सं०कृ०नि० हल्द्वानी	हल्द्वानी	01.04.03 से वर्तमान क	15 वर्ष 01 माह 29 दिन	सुगम	-	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	7/31/2028	7/3/1968	
4	श्री शूपेन्द्रचन्द पन्त	श्री भदन गोहन	नैनीताल	गु.कृ.अ. उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर	3.1.03 से वर्तमान तक	15 वर्ष 04 माह 28 दिन	सुगम	04 वर्ष 06 माह 25 दिन	18 वर्ष 04 माह 14 दिन	31-06-2028	6/12/1968	
5	श्री वीरेन्द्र कुमार धपलियाल	श्री भजन सिंह	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	08.12.2005 से वर्तमान तक	12 वर्ष 05 माह 23 दिन	सुगम	18 वर्ष 08 माह 02 दिन	12 वर्ष 05 माह 23 दिन	1/31/2022	1/15/1961	परिष्ठ कार्मिक
6	श्री बलवीर सिंह रावत	श्री हुकुम सिंह	चमोली	गु.कृ.अ.देहरादून	देहरादून	12.12.05 से वर्तमान तक	12 वर्ष 05 माह 17 दिन	सुगम	-	12 वर्ष 05 माह 17 दिन	10/31/2040	10/19/1980	विकलांग
7	श्रीमती किरन रावत	श्री सरत सिंह रावत	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.12.07 से वर्तमान तक	10 वर्ष 05 माह 29 दिन	सुगम	13 वर्ष 10 माह 17 दिन	10 वर्ष 05 माह 29 दिन	10/31/2031	10/31/1971	तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक अवधि के कारण दुर्गम हेतु पात्र
8	श्री अजीत सिंह धनाई	श्री उदय सिंह धनाई	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	01.11.09 से वर्तमान तक	8 वर्ष 08 माह 28 दिन	सुगम	13 वर्ष 09 माह 29 दिन	08 वर्ष 06 माह 28 दिन	3/31/2027	3/2/1967	
9	श्री हरिओम सिंह	श्री सूखा सिंह	उधमसिंहनगर	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	18.11.13 से वर्तमान तक	4 वर्ष 08 माह 11 दिन	सुगम	-	4 वर्ष 06 माह 11 दिन	5/31/2043	5/7/1983	
10	श्री दर्मियान सिंह नेगी	श्री राबबल सिंह नेगी	टिहरी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	11.9.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 08 माह 18 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 08 माह 18 दिन	5/31/2050	5/30/1990	अपात्र
11	श्री सुशील भट्ट	श्री दिनेश प्रसाद भट्ट	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	18.9.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 08 माह 11 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 08 माह 11 दिन	12/31/2046	12/18/1986	अपात्र
12	कु० सोनम	श्री टीका राम	उधमसिंहनगर	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	9.10.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 07 माह 21 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 07 माह 21 दिन	6/30/2051	6/24/1991	अपात्र
13	श्री गौरव नैथानी	श्रीधर प्रसाद	पौड़ी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	9.1.15 से वर्तमान तक	3 वर्ष 04 माह 20 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 04 माह 20 दिन	3/31/2045	3/22/1985	अपात्र
14	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	श्री कुंवर सिंह	चमोली	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	25.2.15 से वर्तमान तक	3 वर्ष 03 माह 03 दिन	सुगम	-	3 वर्ष 03 माह 03 दिन	1/31/2042	1/24/1982	अपात्र


जोत सिंह पयाल
वरिष्ठ प्र०अधि०


दिनेश चन्द्र जोशी
मुख्य प्र०अधि०


(अ०क०सिंह)
उप कृषि निदेशक (विपणन)


(अ०क०सिंह)
उप कृषि निदेशक (म०रा०)


(क०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक

6-दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत वैयक्त सहायक संवर्ग के कार्य अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कम से कम तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि 31-05-2018 तक	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	सेवानिवृत्त तिथि	जन्मतिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	श्री गोविन्दनाथ गोस्वामी	श्री गंगानाथ गोस्वामी	विथौरागढ़	मु.कू.अ. विथौरागढ़	विथौरागढ़	17.06.85 से वर्तमान तक	22 वर्ष 11 माह 13 दिन	दुर्गम	22 वर्ष 11 माह 13 दिन	-	6/30/2032	6/25/1972	तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक अवधि के कारण दुर्गम हेतु पात्र
2	श्री संजीव रावत	जगदीश सिंह रावत	रुद्रप्रयाग	मु.कू.अ. चमोली	चमोली	30.7.10 से वर्तमान तक	7 वर्ष 10 माह 00 दिन	दुर्गम	7 वर्ष 10 माह	-	6/30/2039	6/16/1979	



जोत सिंह पयाल
वरिष्ठ प्र०अधि०


दिनेश चन्द्र जोशी
मुख्य प्र०अधि०


(डॉ०डी०के०सिंह)
उप कृषि निदेशक (विपणन)


(डॉ०पी०के०शर्मा)
उप कृषि निदेशक (मा०सं०)


(डॉ०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(डॉ०जी०शंकर)
कृषि निदेशक

7. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची (धारा-9)

पद- वैयक्त सहायक संवर्ग

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान/स्थल	सुगम में कुल तैनाती अवधि	दुर्गम में रिक्तियों का विवरण		अभ्युक्ति
						वर्तमान रिक्तियों	सम्भावित रिक्ति	
							स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी	वै०सहायक	नैनीताल	मु०कृ०अ० नैनीताल	32 वर्ष 01 माह 02 दिन	1-मु०कृ०अ० उत्तरकाशी	1-मु०कृ०अ० पिथौरागढ़ 2- मु०कृ०अ० चमोली (कुल योग-02)	
2	श्री महेशचन्द्र तिवारी	मु०वै०अधि०	नैनीताल	कृषि निदेशालय	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	2-मु०कृ०अ० पौड़ी		
3	श्रीमती कमला आर्य	वै०अधिकारी	नैनीताल	सं०कृ०नि० हल्द्वानी	22 वर्ष 11 माह 29 दिन	3-मु०कृ०अ० नरेंद्रनगर		
4	श्री भूपेन्द्र पन्त	व०वै०सहायक	नैनीताल	मु०कृ०अ० उधमसिंहनगर	18 वर्ष 04 माह 14 दिन	4-मु०कृ०अ० बागेश्वर		
5	श्रीमती किरन रावत	वै०अधिकारी	पौड़ी	कृषि निदेशालय	10 वर्ष 05 माह 29 दिन	5-मु०कृ०अ० चम्पावत 6-मु०कृ०अ० अल्मोड़ा		
6	श्री अजीत सिंह धनाई	वै०अधिकारी	पौड़ी	कृषि निदेशालय	08 वर्ष 06 माह 28 दिन	7-मु०कृ०अ० रुद्रप्रयाग		
7	श्री हरिओम सिंह	वै०सहायक	उधमसिंह नगर	कृषि निदेशालय	08 वर्ष 06 माह 28 दिन	(कुल योग-07)		

(जोत सिंह पयाल)
वरिष्ठ प्रशा० अधि०

(दिनेश जाशी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)

(डॉ० ए०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०सं०


(के०श्री०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक

8. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची (धारा-10)

पद- वैयक्त सहायक संवर्ग

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान / स्थल	दुर्गम में कुल तैनाती अवधि	सुगम में रिक्तियों का विवरण		अभियुक्ति
						वर्तमान रिक्तियों	सम्भावित रिक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री गोविन्द नाथ गोस्वामी		पिथौरागढ़	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़	22 वर्ष 11 माह 13 दिन	1-उ०कृ०निदे० (विपणन) मु० 2-उ०कृ०निदे० (सांख्यिकी) मु०	मु०कृ०अ० नैनीताल-01 कृषि निदेशालय-04	
2	श्री संजीव रावत		रूद्रप्रयाग	मु०कृ०अ० चमोली	07 वर्ष 10 माह 00 दिन	3-मु०कृ०अ० हरिद्वार 4-उ०कृ०निदे० (राजस्व आयुक्त) (कुल योग-04)	सं०कृ०नि० हल्द्वानी-01 मु०कृ०अ० उधमसिंहनगर-01 (कुल योग-07)	



(जोत सिंह पयाल)
वरिष्ठ प्रशा० अधि०


(दिनेश जोशी)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)


(डॉ० पी०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०सं०


(के०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शर्करा)
कृषि निदेशक